


उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या : 59 0/14/1/XXI/2012
देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2015,

कार्यालय ज्ञाप

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1412/XVII(4)2015/5(119)/2015 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्रीमती सुनीता बिष्ट, कोटद्वार को राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है।


2. उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुनीता बिष्ट, उपाध्यक्ष "राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद" को उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 509/14/1/XXI/2012-15 दिनांक 04 जून, 2015 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-1(ग) में अन्य दायित्वधारी महानुभाव को अनुमत्य सुविधायें देय होंगी।


(डॉ. एम.सी. जोशी)
सचिव।

संख्या : 59 0 (1)/14/1/XXI/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव- समस्त मा. मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
4. श्रीमती सुनीता बिष्ट, उपाध्यक्ष, राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद।
5. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ. एम.सी. जोशी)
सचिव।